

संक्षिप्त समाचार

दवाओं पर ट्रम्प के टैरिफ का सबसे ज्यादा असर होगा नई दिल्ली।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अक्टूबर से सभी ब्रांडेड और पेटेंट प्राप्त दवाओं पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की घोषणा की। सबसे अधिक भारतीय कंपनियों के प्रभावित होने की आशंका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से अमेरिका को फार्मास्यूटिकल्स का निर्यात 21.09 प्रतिशत बढ़कर 978.39 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया था। खासकर भारतीय कंपनियों (अमेरिका की कंपनियों के दवाओं का यह पैमाने पर निर्यात करती हैं, जो वहां की दवाओं का प्रमुख स्रोत है। उद्योग मंडल फिको की पिछले साल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका की जैनेरिक दवाओं की 40 प्रतिशत मांग की पूर्ति भारतीय कंपनियों द्वारा की जाती है।

मुख्तार पर शिकंजा कसने वाले आईपीएस के घर में चोरी लखनऊ।

राजधानी लखनऊ के विकासनगर क्षेत्र में तैनात की दौरान माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने वाले आईपीएस अधिकारी, रीतू यादव सराफ के घर में चोरी हुई। चोरी के घर से नकदी, सोने, चांदी के बर्तन और टेलीफोन सैलफोन सहित सामान चुरा कर लिए। पुलिस सूत्रों के अनुसार यादव सराफ वकील मन मोहन में दुर्घटना पड़ पर तैनात हैं और परिवार के साथ वही रहते हैं। लखनऊ के अत्यास पर शिवाजी नगर अतिम विभाग रहते थे, जिन्होंने चोरी की जानकारी पुलिस को दी। घटना का खुलासा 23 सितम्बर को जब छात्र जब बिस्मिल विभाग के कर्मचारी पर पहुंचे। घर खोजने पर भीतर का सामान अस्त-व्यस्त मिला।

हाईकोर्ट की यूपीपीएससी की मुख्य परीक्षा नहीं कराने के आदेश पर रोक

प्रयागराज, वार्ता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की संयुक्त राज्य ईजीनियर्सिंग सेवा (मुख्य परीक्षा) पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि आयोग मुख्य परीक्षा का आयोजन करे, मगर इसका परिणाम जारी नहीं किया जाएगा।



परीक्षा कराएँ, मगर परिणाम नहीं होगा जारी

आयोग पहले प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करे और उसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा आयोजित करे। इस आदेश को खिलाफ आयोग ने विशेष अपील दाखिल की। न्यायमूर्ति एमसी रिवाठी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार गुप्ता की पीठ के समक्ष शुक्रवार को बरिष्ठ अधिवक्ता अनुप त्रिवेदी ने

अपील पर सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने एकल न्याय पीठ के आदेश पर आशिक रोक लगा दी है और मुख्य परीक्षा के आयोजन की छूट दे दी है। प्रतियोगी और उनके दावर वाचिकाओं पर कहा गया कि यूपीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तैयार करने के समय आरक्षण के मापदंड (प्रवासन) के सिद्धांत का पालन नहीं किया। इसके तहत आरक्षित वर्गों के निम्न उम्मीदवारों ने याचिका के आधार पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के आधार पर उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें अनारक्षित वर्ग में शामिल किया जाना अनिवार्य है।

भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा: राष्ट्रपति

रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोडक्शन पर बोलों द्वीपीय मुर्मू, रिसर्च की अपील

नई दिल्ली, वार्ता

राष्ट्रपति द्वीपीय मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। मुर्मू ने यहां राष्ट्रीय भूविज्ञान प्रस्कर 2024 में बोलते हुए कहा कि इससे भारत को विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।



वाह, भूखलन, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रिसर्च करे वैज्ञानिक

राष्ट्रपति मुर्मू ने आगे कहा कि स्वदेशी तकनीक के विकास से इस जटिल प्रक्रिया को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेमोरीकेंटर और क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक का दौर है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और रेन्यूबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में रेयर अर्थ एलिमेंट आवश्यक हैं। बता दें कि रेयर अर्थ

एलिमेंट 17 रासायनिक रूप से सामान धात्विक तत्वों का एक समूह है जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और वाइड बैंडविड सॉलर एलएस टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि महत्वमंत्रालय स्थिरता और इनोवेशन के लिए प्रतिबद्ध है। खनन क्षेत्र एआई मशीन लॉगिंग और ड्रोन-बेस्ड सर्वे को बढ़ावा दे रहा है। खदानों के अवशेषों से मूल्यवान तत्वों को प्राप्त कर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हिस्से में बालक करने और भूखलन के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है और ऐसे प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी हमारे घर प्राप्त करना बेहतर जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिक समुदाय में मेरी अपेक्षा है कि वे वाह, भूखलन, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की रिसर्च पर अधिक ध्यान दें।

चार लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित करते हुए बोले सीएम योगी

एआई की मदद से छात्रवृत्ति प्रक्रिया होगी सरल

शाह टाइम्स ब्यूरो



2017 के पहले उन्नयन में छात्रों को छात्रवृत्ति देने में भेदभाव किया जाता था

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को चार लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरित करते हुए कहा कि एआई का उपयोग छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद होगा। ऐसे में छात्र अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसके लिए हम एआई के माध्यम से प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं।

योगी ने कहा कि इस प्रक्रिया में मानवीय लेखक कम रहेंगे और जैसी ही छात्र का पंजीकरण हो जाए, उसके फोन पर पूरी डिटेल उपलब्ध हो और समय पर छात्रवृत्ति पहुंच जाएगी। इसकी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंटराक्टिव कार्यक्रम में बोलते हुए यह बात कही। इस दौरान उन्होंने

यूपी के 240 गांवों में बीएसएनएल के 4-जी नेटवर्क पर होगी बात

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुनिवार को उद्घाटन में भाग संवार निगम लिमिटेड की 4-जी सेवा का शुभारंभ करेंगे।

देश में बीएसएनएल की 4-जी सेवा के शुरू होने के बाद उत्तरप्रदेश की 240 गांवों में 4-जी नेटवर्क आसानी से उपलब्ध होगा, जहां पर अभी तक मोबाइल पर लोगों का बात करना सुनने के समान था। इन गांवों में अभी तक किसी भी दूरभाष कम्पनी की कनेक्टिविटी नहीं है। बीएसएनएल की 4-जी सेवाओं के शुभारंभ से एक दिन पूर्व शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसएनएल (पूर्वी परमिट) के चीफ जूनल मैनेजर एके गुप्ते ने बताया कि पहली बार बीएसएनएल की 4-जी स्वदेशी सेवा को कल से

शुरूआत हो रही है। इसके लिए पूरे देश में 97500 साइडर स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा बीएसएल नेटवर्क के तहत 18900 साइडर को कवर किया जा रहा है। एके गुप्ते ने बताया कि अभी तक हमारे पास 4-जी टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस टेक्नोलॉजी की 22 माह के अंदर डेवलप किया गया है। टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद भारत विश्व के उन पांच देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है। इस सेवा के शुरू होने के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्त राज्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आईजीपी में किया गया है। उन्होंने बताया कि हम 5-जी सेवा पर भी काम कर रहे हैं।

पटेल ने अपनी शिक्षा से, अपनी योग्यता से हमारे देश को और समाज को दिशा दी थी। सरकार का प्रयास है कि हर छात्र को सहायता मिले जिससे कि अपनी शिक्षा से समाज के विकास में योगदान दे सकें।

कच्चे माल पर कर बढ़ाना

भाजपा का गोलमोल सच

लखनऊ, वार्ता



अखिलेश ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलाते हुए कहा कि दिखाने के लिए वेतन माल पर घटाने के साथ ही कच्चे माल पर जीएसटी बढ़ाना 'जीएसटी गोमाला' का सच। यादव ने शुक्रवार को एकस पर लिखा- भाजपा ने दिखाने के लिए वेतन सामान पर जीएसटी घटा दी, लेकिन वो सामान जिससे बनता है, उसके कच्चे माल को जीएसटी बढ़ा दी। यही है भाजपा के 'जीएसटी गोमाला' का सच। उन्होंने कहा भाजपा करोंवाड़ को संकट में डाल रही है, क्योंकि भाजपाई तो सड़कों पर नारे लगाकर, 50 प्रतिशत का भाषण देकर निकल गए। जब जनता बाजार जा रही है और सरता माल नहीं पा रही है, तो दुकानदारों से इंग्रह रही है। भाजपा सुधार नहीं, ग्राहक-दुकानदार के संबंधों को बर्बाद कर रही है। भाजपा किसी

की सारी नहीं है। एक अन्याय के सामने मुझों में दिहाशीर हलाकों में वचन योद्धा के बढ़ते हलाकों को लेकर काफी किर्की भंडिया, कहीं तेंदुआ, कहीं अजगर, कहीं साँसे उग्र में दशरथ को जो वातावरण बना हुआ है, उसके लिए भाजपा सरकार कुछ करेगी या ये कहकर पल्ला झाड़ लेगी कि जांचकर के पदचिह्न नहीं मिलेंगे। जिन पर हमले हो रहे हैं, क्या उनको पालवर शरीर के नसका करीबी नहीं है। या फिर उनको जखम दिखने के बच्चे जांचकर उठा ले जा रहे हैं। भाजपा अब क्या सोसिटीवी के खिलाफ एफ़आईआर कराएगी।

सेंसेक्स 80956.01
निफ्टी 24782.70

सोना रु. 113080
छोटी 10 ग्राम (24 कैरेट)

चंदी रु. 137467
प्रति किलो

अर्थ व्यापार

सोने और चांदी के दाम में फिर आया उछाल

यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक और फर्जीवाड़ा

बाजारों में चौतरफा बिकवाली, संसेक्स लुढ़का

संसेक्स की कंपनियों में शामिल शेयरों में ज्यादा गिरावट रही

मुंबई, वार्ता

भरले शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार छठे दिन गिरावट देखी गई और शुक्रवाती कारोबार में बीएसएनएल का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक संसेक्स 450 अंक गिरकर गया। बाजार में शुक्रवार को शुरू से ही बिकवाली हाजीर रही। संसेक्स 203,661 अंक की गिरावट के साथ 80,956.01 अंक पर खुला।



फार्मा, आईटी, बैंकिंग, कंज्यूम ड्यूबल्स, स्वास्थ्य, तेल एवं गैस और एफएमसीजी समेत लगभग सभी सेक्टरों में निवेशकों ने बिकवाली की। खबर लिखे जाते समय संसेक्स 378,57 अंक (0.47 प्रतिशत) की गिरावट में 80,781.11 अंक पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 सूचकांक भी 72.2 अंक गिरकर 24,818.55

विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 702.57 अरब डॉलर पर मुंबई। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 सितम्बर को समाप्त हुए सप्ताह में 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर पर आ गया। इससे पहले लगातार तीसरी साप्ताहिक तेजी के साथ 12 सितम्बर को यह अब तक के दूसरे उच्चतम 702,966 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बताया कि 19 सितम्बर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंचन 86.4 करोड़ डॉलर घटकर 586.15 अरब डॉलर रह गया। हालांकि स्वर्ण भंडार 36 करोड़ डॉलर की वृद्धि के साथ 92,779 अरब डॉलर रहा। विशेष आह्वान अधिकार 10.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 18,879 करोड़ डॉलर पर आई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आरक्षित निधि 20 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 4,762 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

सोने और चांदी के दाम में फिर आया उछाल

नई दिल्ली। लगातार पौ दिन से गिरावट के बाद सोने में शुक्रवार को उछाल देखने लगा। हालांकि ये तेजी इतनी अधिक नहीं है, वहीं चांदी की रफ्तार ने भी तेजी पकड़ ली। शुक्र 9.30 बजे एससीएसए पर सोने में 174 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई है। देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई में 10 ग्राम गोल्ड खरोले के लिए ज्यादा पैस चलाने होंगे। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड के भाव देश की राजधानी दिल्ली में 250 रुपये प्रति 10 बक्कर 113,080 रुपये पर आ गए हैं। मुंबई में सोने के दाम 450 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हैं। सोने को कामेंट 113,470 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। गोल्ड के भाव आज 0.400 फीसदी सबसे सरता मिल रहा है। रायपुर में आज सोना सबसे सरता मिल रहा है। यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 113,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आईबीजेएफ के अनुसार चांदी का भाव 2911 रुपये बढ़ा है। हालांकि एससीएसए में दोपहर 3.42 बजे चांदी की कीमत में 864 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी गई है। शुक्रवार को 1 किलो चांदी का भाव 137,467 रुपये बढ़े किता गया है। इस हिसाब से देखें तो आज चांदी में 2911 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी आई है।

यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक और फर्जीवाड़ा

14 अलग-अलग पिता के नाम पर 35 को मिली नौकरी, जांच में खुलासा



लखनऊ। यूपी स्वास्थ्य विभाग में एक-रे टेक्नीशियन पर पती मामले में अब नया खुलासा हुआ है। खाद्य एवं स्वर विभाग की जांच रिपोर्ट में चपनि आर्थिथियों को सूची में ऐसे कुर्चीकार वाले बच्चे सामने आए हैं, जो सोने-सुने धोषी की ओर इशारा करते हैं। विभाग ने पूरे मामले को जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को सौंप दी है।

खाद्य एवं स्वर विभाग 2008 और 2016 में हुई नियुक्तियों की जांच कर रहा है। 2007 में एक-रे टेक्नीशियन के 572 पदों पर हुई नियुक्ति में भी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जांच रिपोर्ट से पता चला है कि 14 अलग-अलग पिता के नाम पर 35 आर्थिथियों की नियुक्तियों की गई हैं। उदाहरण के तौर पर एक ही पिता गुलाब सिंह के चार बच्चों जयनंद सिंह, नेम सिंह, अजय सिंह व अतुल कुमार सिंह की नियुक्ति हुई है, जबकि पिता सभी का अलग-अलग है। स्वास्थ्य विभाग में एक-रे टेक्नीशियनों की पती मामले में फर्जीवाड़े का खुलासा से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। यह भी पता चला है कि कई आर्थिथियों के नाम एक जैसे तो हैं, लेकिन उनको जाति अलग-अलग दत्त

प्रथम पृष्ठ के शेष...

दुष्कृत...
वोके विनयकुमार ने कहा कि भारत, जो अनेक दिनों का एकसंघर्ष है, उसे इससे ज्यादा अनेक ही होगा। लेकिन जो सकता है कि राष्ट्रपति का अमला निशाना जैनेरिक दवाओं है। इस फीसले का फार्मास्यूटिकल उद्योग पर भावनात्मक असर पड़ सकता है। भारत जैनेरिक दवाओं अमेरिका को एकपक्षी करने वाला सबसे बड़ा देश है। 2024 में भारत ने अमेरिका को लगभग 8.73 अरब डॉलर (भारत के 77 हजार करोड़ रुपये) की दवाओं भेजीं, जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का करीब 31 फीसदी था। अमेरिका में डाक्टर जो फिजिकयन लिखते हैं, उनमें से हर 10 में से लगभग 4 दवाओं की मांगिका कंपनियों की बनाई होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में अमेरिका के हेलथकेयर सिस्टम के 219 अरब डॉलर बचे थे। 2013 से 2022 के बीच यह बढ़ा 1.3 ट्रिलियन भी। भारत की बड़ी फार्मा कंपनियां, जैसे डा. रेड्डीज़, सन फार्मा, यूपीएन सिर्फ जैनेरिक दवाएं ही नहीं बेचती, बल्कि कुछ पेटेन्ट दवाएं भी बेचती हैं।

आई वल भुध्मर...
के रूप से संयोजक करते हुए सहायक पर निकलते। इस दौरान कुछ लोगों ने डांड़ों और तोफगाड़ शुरू कर दी। इन्हें दम-नियंत्रित कौशल (आईएसपी) के प्रमुख मौलाना तीकरंज

खां ने शुक्रवार सुबह एक वीडियो जारी कर कहा था कि मीडिया को खबरें चले रही हैं, वह सरसर गलत हैं। पुलिस प्रशासन के साथ कुछ मुखबिरों ने मिलकर साक्षर रचकर यह काम किया है। मौलाना ने कहा कि उन्होंने जो ऐलान किया था। उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। जुमे की नमाज नैमहाला मस्जिद में पहुंचे। उसके बाद बहुत ही विमोहनी और अमन के साथ हम अपनी तकलीफों और परेशानियों के लिए डीएम के जरिये राष्ट्रपति को जापन देना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार को कोई टिप्पण नहीं है। अगर जिला प्रशासन लोगों को रोक-थोक करेगा तो उसके साथ बदमाशी की जाएगी। न्यायदती की जाएगी, तो उसके जवाबदेही जिला प्रशासन को खुद होगी। हमारा कार्यक्रम पूरी तरह अमन का है।

अनारक्षित प्रत्यक्ष...
है। अखतल ने कहा कि यह अधिनियम की धारा 9(6) और 9(7) के विरुद्ध है। हाईकोर्ट का कहना था कि जब कारतु सप्तरूप से यह रोक लगाता है कि फिक्रि मरदादा का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों या मरदादा सूचियों में दर्ज नहीं हो सकता और यह बेवकालि प्रक्रिया है, तो यद्यपि चुनाव आयोग द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण इस प्रतिबंध के विरुद्ध विपरीत प्रतीत होता है। उम्मील हाईकोर्ट ने उस परिपत्र पर रोक लगाई और निर्देश दिया कि उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसी आदेश के खिलाफ एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खालिफ कर दिया।

लद्दाख में पार्टी को बदनाम करने वालों के विरुद्ध होगी कानूनी कार्रवाई: कांग्रेस

नई दिल्ली, वार्ता



यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा

मीडिया प्रमोटर फिरोज खान की तथ्यी और फूटन दिशाकर उसे कांग्रेस के लिये न्यायिक पावर फूटसंग टैरिजल लॉगिक बनकर उसे मलत उतरे के पक्ष पर रहे हैं। जिनमें उन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई करने के पक्ष पर रहे हैं, जिनमें न केवल हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है, बल्कि अशांति भी कर विरोधी को हवा देने हुए मतभेद और फैलाता का प्रयास किया है। खेला ने कल कि

डा. मनमोहन सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की जयंती पर नमन करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।

बतासीफाइड्स Sale

खी के सामने तज्जित होने से बेहतर है

काम क्यों उदास क्यों?

वैधानिक सुझा



ADVERTORIAL

Jharkhand Eco Tourism

A SUSTAINABLE PATH TO GROWTH

CM Hemant Soren puts vision into action; calls for preserving heritage & generating employment, Jharkhand is a state rich in natural beauty, dense forests, and diverse wildlife. Recognising its vast potential for ecotourism, the state government led by CM Hemant Soren has initiated several projects and policies aimed at promoting sustainable tourism while preserving its unique ecological heritage.

Every year, Jharkhand has a huge footfall of domestic and foreign tourists, who are attracted to its magnificent waterfalls, abundant and diverse wildlife, looming hills and mountain ranges, lush green forests, and the rich cultural heritage, including its handicraft, folklores and dances. The state is truly a kaleidoscope of its past and present glory.

BOOST TO ECOTOURISM

The state government firmly believes that development of the tourism sector would not only generate immense employment opportunities, but also contribute to accelerated economic development. This would ensure showcasing of the rich traditional and cultural heritage of the state, which will also have a cascading effect and lead to development of other sectors as well. For this, the state will ensure accelerated development of tourism-related infrastructure, increase employment opportunities, augment its resources and showcase the rich cultural heritage and traditions. The broad objectives of its tourism policy are to promote tourism in the state in such a manner that it contributes to generation of



AREA OF FOCUS

Making Jharkhand a preferred tourist destination	Attracting high end tourists	Generating employment and economic growth	Optimum utilisation of resources	Promoting private sector in tourism	Providing quality amenities to tourists
--	------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	---

Jharkhand has the potential to emerge as a leading destination in tourism, especially in eco-tourism. With Jharkhand Eco Tourism Authority (JETA) becoming functional, we are working to promote home stays and eco-cottages in forest areas. Very soon, Jharkhand will be ready to welcome visitors from across the country to explore its natural beauty, rich culture, and the unique experience of living close to nature.

Sudhaya Kumar, Minister of Tourism, Jharkhand

employment and rapid economic growth, optimum utilisation of resources to attract maximum number of domestic and foreign tourists, and to increase the average duration of their stay in the state. Promoting ecotourism apart from religious, adventure tourism etc, is a major part of tourism development in Jharkhand.

GREEN GOALS

Chief Minister Hemant Soren has consistently emphasized the importance of developing eco-tourism in Jharkhand to both preserve the state's rich natural heritage and provide employment opportunities for local communities. In a meeting with senior officials, he stated: "Eco-tourism should be developed in the state in such a way that along with providing

employment to the local people, nature can also be preserved." Highlighting the state's vast potential, he remarked that Jharkhand's natural beauty could gain a unique identity both nationally and internationally through focused eco-tourism initiatives. He also directed officials to study successful ecotourism models from other regions to implement best practices in Jharkhand. Further, during the inauguration of an ecofriendly resort near the Massanjor Dam, CM Soren noted that the resort aims to promote ecotourism while creating employment opportunities for locals. These statements and actions underscore the Chief Minister's commitment to leveraging ecotourism as a means for sustainable development and environmental conservation in Jharkhand.


ECOFRIENDLY RESORT AT MASANJOR

The resort built near the Massanjor dam, located along the banks of the Mayurakshi river on one side, and the green hills on the other, is known for its scenic and picturesque beauty, and is a tourist's delight. It comprises 25 cottages built with imported SPF (spruce-pine-fir) wood by the forest department. There are 10 premium and 15 deluxe cottages. The idea was to make tourists comfortable with maximum ecofriendly facilities, so that they are able to soak in nature's bounty and the beauty of the place.



Development of eco-tourism in Jharkhand will create job opportunities for locals and also promote the cultural heritage of the place. The government is also considering developing the existing tourist.

Sri Hemant Soren
Chief Minister, Jharkhand



A TREASURE TROVE


City of waterfalls: The capital city of Ranchi is also known as the 'City of Waterfalls', with seven stunning waterfalls, including Hundru and Jonha Falls. Ranchi offers a refreshing escape from the hustle and bustle of city life. The cascading waters, surrounded by lush greenery, create a serene ambience that soothes the mind and rejuvenates the spirit.

Trekker's paradise: For adventure enthusiasts, Jharkhand is a dream come true. The state's rugged terrain offers endless opportunities for trekking, rock climbing, and camping. The Saranda Forest, with its 700 hills, is a trekker's haven, while the Trikuta Hills and Lugu Buru offer challenging climbs with panoramic views. The Tagore Hill in Ranchi, named after the renowned litterateur and poet, Jyotindranath Tagore, provides a unique blend of nature and culture. One can also explore the Betla National Park and Dalma Wildlife Sanctuary, where one can witness majestic tigers, elephants, and graceful deer in their natural habitats.

MANDRO FOSSIL PARK

The Mandro Fossil Park is located in Mandro, a community block in the Sahibganj district of Jharkhand lying in the forested hilly area of Gummin the Rajmahal Hills. It broadly constitutes the areas of Sahibganj, Pakur, Dhumka and, and Godda districts of Jharkhand. The Rajmahal Basin is characterised by rocks dating to the early Cretaceous period or about 120 million years ago when present day Africa and South America had split from Australia, India, and Antarctica. It was a period when dinosaurs still roamed the

earth and the climate was warm with rising sea levels. The rocks in the basin thus belong to the 'Rajmahal Formation' which is characterised by the presence of volcanic-sedimentary deposits and basalt flows. BSIP scientists are working closely with the forest officials of the Government of Jharkhand and playing a critical role in the preservation and documentation of the region's plant specimens (permineralized fossil woods and leaf impressions).



Home to natural marvels

NETARHAT ECO-RETREAT

Nestled in the lap of pristine forests and verdant hills in Latehar, Netarhat, 3,622 feet above sea level, is a treat for tourists, who make a beeline for it, especially in the winters, from within the state and outside. Popularly known as the 'Queen of Hills', the place is dotted with splendid waterfalls and forests. Netarhat will soon see development by way of tourist-friendly infrastructure and facilities. The government plans to come with a winter eco-retreat here with 50 luxury tents with all amenities, including a restaurant and conference room to attract tourists annually in the winters.



UDHWA BIRD SANCTUARY

Udhwa Bird Sanctuary, located in Sahibganj district, Jharkhand, is a wetland and a Ramsar site. It is a crucial habitat for various bird species, including migratory ones, and was declared a Ramsar site in February 2025, making it the first Ramsar site in Jharkhand. The sanctuary consists of two interconnected wetlands, Pataura Lake and Barhel Lake, and is linked to the Ganga River.

KAMALDAH LAKE

Kamaldah Lake, a serene destination to experience nature up close, is located approximately 25 kilometers from the Palamu district headquarters and about seven kilometers northeast of the Betla National Park. Surrounded by dense forests, the journey to the lake offers stunning views that set the tone for the tranquil experience awaiting visitors.



PANSUA DAM

Pansua Dam is located within the Kundrugutu Range, specifically in the Sonua Block of West Singhbhum district, Jharkhand, India. It's a popular tourist attraction known for its scenic beauty and is located about 55 km from Chaibasa. The area is also part of the Porabhat Reserves, which includes Songra, Kundrugutu, and Bera forest blocks.

PLAN YOUR ECO-ADVENTURE NOW

Whether you're a nature lover, an adventure seeker, or a culture enthusiast, Jharkhand has something to offer everyone. With its pristine wilderness, cascading waterfalls, and rich cultural heritage, Jharkhand is the perfect destination for an eco-friendly getaway.

HOW TO GET THERE:

- By Air: Ranchi airport is well-connected to major cities in India
- By Train: Ranchi railway station is a major railhead with connections to all parts of the country
- By Road: Jharkhand has a well-developed road network, making it easily accessible by bus or car

WHERE TO STAY:

Jharkhand offers a range of accommodation options, from eco-resorts and homestays to budget hotels and guesthouses

[illegible]

मेरठ जेल में बंद गुर्जर समाज के युवाओं से मिले सांसद चंदन चौहान

सम्राट मिहिर भोज के होर्डिंग को लेकर हुआ था विवाद, राजनीति हुई गर्म

■ सांसद ने कहा आई लव मोहम्मद पर सभी को अपने धर्म पर चलने का अधिकार

शाह टाइम्स संवाददाता मेरठ। विजनीर से लालटेर के सहित चंदन चौहान शुक्रवार को मेरठ जेल में गए। जेल पर पहुंचे यहाँ पर उन्होंने जेल में बंद गुर्जर समाज के युवाओं से मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद चंदन चौहान ने कहा कि रातों में गुर्जर समाज महापंचायत कर रहा था शांति के साथ आवाजें उठा रही थानाचौक में ऐसा कोई भी कार्य गुर्जर समाज के युवाओं ने नहीं किया जिसकी उद्देश्य सामिल उन्होंने कहा कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर समाज के अस्ती नायक है। इस दौरान चंदन चौहान ने उल्टा विपक्ष को भी जातिकों में लड़ने का आग्रह लगा दिया। जिसका लड़ाई उल्टा और गुर्जर समाज के बीचो बीच चलाते रहने वाले चंदन चौहान ने कहा कि विपक्ष लगातार जातिकों के पक्ष में गुर्जर को अप्रेम में विपक्ष को नहीं बीजेपी को सकार है और



सरधाना क्षेत्र के पूर्व विधायक संगीत सोम ठाकुर समाज से हैं। यहाँ पर ठाकुर समाज के लोग पहले मुसलमानों से झगड़ते हुए रिहाई दिए उसके बाद गुर्जर समाज के साथ सदा मिहिर भोज के बंद को लेकर विवाद हुआ। जिला जेल पर चले हुए विजनीर सांसद चंदन चौहान ने कहा कि विपक्ष लगातार जातिकों के भिड़ाने का एजेंडा चला रहा है। जिसका यह 22 लोग शिकार हो गए। इसलिए इन साधियों को पीडा में हम इनके साथ हैं। कोई भी बेगुनाह व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विपक्ष नहीं चाहता कि प्रदेश में शांति रहे, इसलिए लोगों को अप्रेम में लड़ना जा रहा है। दूसरी पंचायत में किसी साधिका के जल हिंसा करवाई, यह जांच का विषय है। इसकी जांच होती चाहिए। हमें जाना है।

आई लव मोहम्मद: जुमे की नमाज पर अलर्ट रही जानी पुलिस

शाह टाइम्स संवाददाता जानी खुद। जिले में आई लव मोहम्मद नामले को लेकर मेरठ के तमाम दोस्त क्षेत्र के मजिस्ट्रेटों के बाहर जानी पुलिस अलर्ट रही और जुमे की नमाज सफ़रुख सैनिक कर्माई वहाँ जुमे की नमाज के बाद सरली में बवाल हो गया जिसमें मामले पर सैकड़ लोग इस्लामिया मार्केट में इकट्ठा हो गये और पुलिस ने मोह को समझाने को कोशिश की लेकिन प्रदर्शनकारियों ने जेडकोड की ओर पुलिस पर पहरा हो गया जिसमें पुलिस ने सड़ो जाई कर सभी को खदेड़ा। इसी को लेकर जानी पुलिस रसूलपुर भीलडी सिवालखास मिराला कला आदि मुसलमान इलाकों में पैरल मार्च नाचल और सभी को समझाया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें और ऐसी पोस्ट न डालें जिससे कोई विवाद पैदा हो।

सीएम योगी आदित्यनाथ के फोटो डालकर आपत्तिजनक पोस्टर डालने वाले दो युवक गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता सरधाना पुलिस ने एकदमजी योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट करके आपत्तिजनक पोस्टर सोशल मीडिया पर डालने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार के मोहल्ला धर्मपुरा निवासी मोहम्मद पूरा इस्लामादीन ने सोशल मीडिया पर मुछममजी योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हुए आपत्तिजनक पोस्टर डाली थी, जिसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गये आली टीम में सब इसमें कर जितने वर्मा, अन्जो



पुलिस की गिरफ्त में पकड़ा गया आरोपी। देवी, गोव रमन शांति रहें। दूसरी तरफ सरधाना पुलिस ने इसी मामले में सरधाना पुलिस सावेज हुए जेल भेज दिया।

अखिलेश यादव के सामने पहुंचा दादरी-सलावा प्रकरण

सरधाना विधायक अतुल प्रधान ने मुलाकात कर सपा प्रमुख को दी जानकारी


शाह टाइम्स संवाददाता सरधाना। समाजवादी पार्टी से सरधाना विधायक अतुल प्रधान ने शुक्रवार को लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए दादरी व सलावा गांव में हुए प्रकरण के बारे में अवगत करते हुए बताया कि पुलिस व प्रशासन ने इस मामले में एक तरफा कार्यवाही की है। इसके गांव में हुए प्रकरण के बारे में अवगत कराया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पुलिस बंदर सलावा में सारी कार्रवाही भरी करती तो यह खुद मेरठ आयेगी, और यदि नहीं तो मुलाकात करूँ। सरधाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक अतुल प्रधान ने शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए उन्हें सम्राट मिहिर भोज को तब्यो भेंट की। इससे साथ ही अतुल प्रधान ने

अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव सलावा में ठाकुर व मुस्लिम समाज के बीच हुए विवाद के बारे में अवगत करते हुए बताया कि पुलिस व प्रशासन ने इस मामले में एक तरफा कार्यवाही की है। इसके गांव में हुए प्रकरण के बारे में अवगत कराया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पुलिस बंदर सलावा में सारी कार्रवाही भरी करती तो यह खुद मेरठ आयेगी, और यदि नहीं तो मुलाकात करूँ। सरधाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक अतुल प्रधान ने शुक्रवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए उन्हें सम्राट मिहिर भोज को तब्यो भेंट की। इससे साथ ही अतुल प्रधान ने



शांतिर युवक बाइक चोरी कर धड़ल्ले से कटवा रहा है चालान

मेरठ। इसे कानून का राज कहे या तोलराज कि एक युवक में कानून नाम का कोई खौफ नहीं है। गंगानगर निवासी संजीव के अगुआ उसकी बाइक वृषी-15 ए डब्ल्यू 7794 आवलेन से चोरी हो गई थी जिसकी सूचना उसके दादा थाना सर बाजार में दे गई थी। अचानक उसके मोबाइल पर चालान के मेसैज आने लगे हैं। एक युवक का फोटो साफ आ रहा है जो मोदी नगर में उसकी बाइक को धड़ल्ले से चला रहा है और एक के बाद एक चालान कटवा रहा है। क्योंकि आली संजीव के नाम है इस कारण उसकी ही मोबाइल पर चालान के मेसैज आ रहे हैं। और चालान में फोटो भी साफ दिख रहा है। एक शांतिर युवक उसकी बाइक को प्रयाग कर रहा है। लेकिन पुलिस है कि आरोपी को कोई तालाश नहीं कर रही है। उच्च अधिकारियों के भेजे प्रश्नोत्तर पत्र में संजीव ने बौर को निपटार कर बाइक को वापस करने की मांग की है लेकिन सवाल बाइक चोरों को मान्यता का है कि इस योगी नगर में भी उनके अंदर कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है।



डीआईजी रेंज के शहर भ्रमण कर लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा



■ मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला कॉलेजों के पास किंगडम पार्क गश्त

शाह टाइम्स संवाददाता मेरठ। पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र कानूनी निरीक्षण दल शुक्रवार को एसीपी निरंज अग्रुप विद्वान सिंह के साथ 'मिशन शक्ति

5.0 अभियान, जुमे की नमाज एवं शांतिर युवक पर आगामी सोमवार के दृष्टिगत जंगम मेरठ में शहर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। स्थलों की छुट्टी के समय महिला कॉलेजों के आसपास पैरल मार्क को सुनाया गया। मिशन शक्ति अभियान को समीक्षा की गई तथा सर्वे समन्वित कार्य के अंतर्गत गश्त किया गया। इस दौरान सभी सुरक्षा बल साथ रहा।

जब बात मान सम्मान और स्वाभिमान की आए तो महिलाओं को उठाना चाहिए हथियार: हिमांशु

अन्याय से लड़ने के लिए पूर्व सांसद फूलन देवी का जीवन प्रेरणा स्रोत

शाह टाइम्स संवाददाता मेरठ। समाजवादी पार्टी के नेता हिमांशु सिद्धांत ने एक बार फिर महिलाओं को हथियार उठाने के लिए आह्वान किया है। जैसी दिल्ली विधानसभा में पूर्व सांसद फूलन देवी की पुष्पातिथि पर एक सभा में कहा था कि जब बात महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए दिल्ली भी जांच से नहीं नहीं हटता चाहिए समग्र-समग्र पर महिलाएं दुर्गा का रूप लेती हैं और जब दुर्गा का रूप लेती महिलाएं मेरठ में आती हैं तो वह हर चीज पर विजय होती है इसलिए महिलाओं को कभी भी हथियार उठाने से डरना नहीं

उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया बल्कि जुल्म करने वालों को सबक सिखाया और उसके बाद ही वह समाज को सही आर्थात् दिखाने के लिए आगे बढ़े हैं और समाज बनने की है। हिमांशु ने कहा कि हर पुरुष में और हर दशक में महिलाओं ने अपनी ताकत का एहसास कराया है और इसी ताकत को देखते हुए उन्होंने यह बयान दिया था उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है महिलाएं अपनी ताकत को समझेंगी और बात मान सम्मान को आपसी वह फूलन देवी से सीखें होकर हथियार उठाने की जगह उनके सामने कोई भी अन्याय टिक न सके।



जुटी बीमारियों और अनेक समस्याओं की जांच जैसी उनका सेवाएं शामिल हैं। अमेरिका के एक बड़े अस्पताल के साथ इसकी साझेदारी के कारण अग्रधन भारत की एकमात्र फरेर सेव है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को रिपोर्ट प्रदान करती है। मेरठ में अग्रधन की लैब पीपीसी पाइरास वैसीलोलोनी निरक्षण प्र. लिमिटेड, जो भी आगमन, उर्वरित निरक्षण के जांच, संक्रामक बीमारियों, नलों से

सपा कार्यकर्ताओं को जिला कारागार जाने से रोका, पुलिस से नोकझोंक

■ सपाईयों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर की नौबाजी

शाह टाइम्स संवाददाता मेरठ। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने सपा नेता मुहियुद्दीन अली के नेतृत्व में कार्यकर्ता जिला कारागार से एकत्र होकर जेल की तरफ रवाना हुए तो पुलिस ने उन्हें जिला कारागार जाने से रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में रोव देखने को मिला। उन्होंने वहाँ जमकर नाराजों की इसको बंद सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी ने एक प्रेसवार्ता आयोजित कर कहा कि नारायण जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को



रवाना चाह रही है। सपा नेता हिमांशु सिद्धांत ने कहा कि सलावा का उद्देश्य है बदलाव करना वहीं पुलिस ने सलावा को रोक दिया है और हिंदू धर्म में भी कई देवियों को भगवान मानकर पूजा

आई लव मोहम्मद से सपा नेताओं को एतराज ?

शाह टाइम्स संवाददाता मेरठ। आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर को जहाँ कई धार्मिक संगठनों को एतराज था वहीं अब धरम में समाजवादी पार्टी के भी नेताओं में भी इस बैनर व पोस्टर का एतराज देखने को मिला है। शुक्रवार को विपक्ष समग्र समाजवादी पार्टी के नेता पारसी और सलावा प्रकरण को लेकर हंगामा कर रहे थे तभी पार्टी के कुछ लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय में आई लव मोहम्मद का एक छोटा सा बैनर लगाकर मोहम्मद का संदेश देना चाहते थे लेकिन सुर्ज से मिली खबर के अनुसार समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी व अन्य नेताओं ने इसे लगाने से मना कर दिया। समाजवादी पार्टी को विपक्ष में उभरते नहीं बल्कि पूरे उतर प्रदेश में मुस्लिम समाज के बोटी के बल पर प्रदर्श है उसी के नेताओं को अब आई लव मोहम्मद से

दिकत दिखाई देने लगी है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में बिन लोगों ने यह नज़ा देखा वह देखते ही रह गए कि जिस समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर रहा है और पार्टी को बिरा करने के लिए पार्टी को सलाह करने के लिए विपक्ष को लक्षित था रहा है उसी के पार्टी कार्यालय में सिर्फ एक बैनर लगाना भी अब विवाद बन रहा है। अधिकतर लोगों की नज़रें से इस मामले को छुपाया गया लेकिन इसी खबरें अस्मर छुपनी जहाँ पर मजबूत के नाम पर दिलों में नफरत का संदेश भरा हो, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने अतुल सन बैनर को उतरवा दिया और वह कर कर मामले को रफा दफा कर दिया कि यह नहीं में लगाना जाएगा। अब इस मामले में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी से पते पर बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन रिस्ते नहीं किया।



आभयान जो यन्त्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसको सभी महिलाओं को अपना हक और अपनी लड़ाई में मदद का मौका मिलेगा। इस बीच पर मिशन शक्ति अभियान प्र. लिमिटेड, जो भी आगमन, उर्वरित निरक्षण के जांच, संक्रामक बीमारियों, नलों से

सदस्यता अभियान से लोकदल की जड़े हो रही मजबूत



शाह टाइम्स संवाददाता जानी खुद। सिवालखास विपक्ष के सदस्यता अभियान के प्रभारी रणवीर सिंह को नेतृत्व बना रसूलपुर जावेद में प्रथम कुदरती हड़ताल के निमित्त पर आवाज बोलने की अवस्थाता सहस्त्र पर प्रया प्रदान ने है। इस दौरान रणवीर ने पार्टी को किसान सङ्घर दिवसीय पार्टी बसाकर अर्थिक से अर्थिक संघर्ष में जुड़कर पार्टी को मजबूत करने की अपील की वहीं रणवीर चौधरी, अच्युतार चौधरी, मनी, बिहदाला ने भी विचार शक्ति पार्टी को मजबूत करने की अपील की इस मौके पर रावत, राववीर, राजपाल गांधी, सुर्यकांत, मदन, सोराव और मीनू रहें। शुक्रवार को रणवीर सहित अलग अलग गांव में गए जहाँ पर उन्होंने रावती को मजबूत बनने का काम किया।

सुभारती में रास रंगीलो डांडिया नाइट की मची धूम



शाह टाइम्स संवाददाता मेरठ। स्वामी विवेकानंदर सुभारती विवि परिसर शुक्रवार को शाम संगीत, संस्कृति और उत्साह के रंगों से सराबोर हो गया, जब रास रंग, रंगी डांडिया नाइट का मंच आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अग्रधन प्रविष्ट होकर सेवेयिका रात्री, विनके उज्ज्वल संगीत ने उर्ध्वविश्व हर व्यक्ति को धुमने और धिक्कने पर विवका कर दिया। पारंपरिक परिधानों में सजे छात्रों और संकाय सदस्यों ने डांडिया की खनक और रास की गंध पर रंग रंग कर अपनी रास को वापस बनाया। सस्कृतिक संस्था का शुभारंभ विवि की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्वेतार, कुलपति प्रो. डॉ. पी. के. राय और अधिष्ठात्री अधिकारी डॉ. कुष्णमूर्ति ने संयुक्त रूप से मौजूद रहे।

राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में एक दिन की प्रधानाचार्य बनी कक्षा-12 की छात्रा खुशी



शाह टाइम्स संवाददाता लाहव। कक्ष में वीराला रोड पर स्थित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा को एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया। जिसमें छात्रा खुशी प्रधानाचार्य की संदेश पर बैठी और सामने कुछ अध्यापक और अध्यापिका भी मौजूद रही। छात्रा ने प्रधानाचार्य की पद पर बैठकर अनुशासन बनाए हुए अपना छात्रा छात्राओं को अपने कार्य के बारे में उचित किया और अपने कार्य का पूर्ण रूप से निर्वहन किया।

राष्ट्रीय आलमीकि कान्तिकारी मोर्चा ने सौपा डीएम को ज्ञापन



शाह टाइम्स संवाददाता मेरठ। राष्ट्रीय आलमीकि कान्तिकारी मोर्चा ने एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्टर को पोषा है, जिसमें केरला सरकार चर्चाला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तालन किया गया। आलमीकि समाज को अलग आश्रय दिया जाए। सभाई में

राष्ट्रीय आलमीकि कान्तिकारी मोर्चा ने सौपा डीएम को ज्ञापन



प्रथा बंद किया जाए अस्थाई भर्ती हो आलमीकि बजती पर राउर छुट्टी चौपल को ज्ञापन दिया। राजन देव बाली में दर्शन में मोर्चा के पक्षधरों ने कार्यकर्ता मौजूद रहे। उनका कहना था कि सभाई अस्थाई भर्ती को बंद कर दिया जाए। आलमीकि समाज को अलग आश्रय दिया जाए। सभाई में

नम्र भारत सरकार द्वारा गठित नगर निगम के सदस्य कार्यालय अधीनस्थ, जिनमें हिन्दी पखवाड़े के अवसर पर प्रयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कर्मचारी, कर्मचारी और अन्य स्टाफ ने भाग लिया।

घर से स्कूल व मजदूरी पर जाने को निकले थे दोनों युवक, पिलाना मोड़ के निकट हुआ हादसा, परिवारों में शोक



मृतक का फाइल फोटो

सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में पिलाना मोड मेरठ बागपत नेशनल हाईवे पर नायरा पेट्रोल पंप के निकट दो बाइको में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। वहां पर मौजूद हुए लोगों ने बताया कि टक्कर होने के बाद दोनों बाइकों पर

स्कूल स्कूल जा रहा था, जबकि असलम मजदूरी के लिए निकला था। पिलाना मोड़ के निकट दोनों की बाइके आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही

दम तोड़ दिया। हादसे सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और बाइकों के नम्बर और युवकों के पास मिले दस्तावेजों से उनकी पहचान की। इसके बाद पुलिस ने उनका परिजनों को घटना की जानकारी दी।

घटना की सूचना मिले ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विशाल और सुमित हैं। दोनों बागपत

मं अलग-अलग जाहो पं पटाख
बेचने की हरकत मं थे। खेकड़
कोतावाली प्रभारी प्रभाकर केन्तुरा ने
बताया कि प्रतिबंधित पटाखा के
विक्री पं सख्त कार्वाइ की
जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने
चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित पटाख
बेचते हुए पकड़े जाने वालों के
खिलाफ कड़ी कार्वाइ की जाएगी।
हिलहाल पुलिस मामले की जांच
कर रही है।

माताओं ने केक काटकर धूमधाम से मनाया बेटियों के जन्मोत्सव

जालियाँ, महिला सुरक्षा और जागरूकता से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी। कार्यक्रम में सबसे पहले छात्राओं को महिला हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की समस्या, छेड़छाड़ या असुरक्षित स्थिति में छात्रएँ बिना संकोच नृन हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग कर सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सहायता माँगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।

सेवा योजना से असहाय बालिकाओं को मासिक भत्ता, शिक्षा और विवाह में सहयोग दिया जा रहा है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री साहजिक विवाह योजना और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान जैसी योजनाएँ भी बेटीयों को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम हैं। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति अभियान को लहत महिला सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न हेलपलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञ ने माताओं को नवजात

शिशु का देखभाल पर उपयोगी सुझाव दिए। विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला दूध (कोलोस्ट्रम) शिशु के लिए प्राकृतिक टीका है। शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहले छह मास केवल माँ का दूध पिलाना सर्वोत्तम है। हाल ही में बागपत के बड़ौत बालिडीप से शुरू हुई आंचल पहल का उद्देश्य भी स्तनपान कराने वाले माताओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। सर्वजनिक स्थानों में

ब्रेस्टफीडिंग वृथ्वा स्थापित क माताओं को सुविधा और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा रहा है। यह प्रयास मिशन शक्ति 5.0 के उस संकल्प का प्रतीक है जिसमें महिलाओं को गरिमा, सुरक्षा और सार्वजनिककरण प्रदान करने के साथ-साथ मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य की रक्षा पर विशेष बल दिया गया है। कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम में माताओं ने मिलकर केक काटा और बेंटियों के जन्मक उत्सव सामूहिक आनंद के साथ मनाया।

पं सुभाष शर्मा का किया स्वागत

देर के प्राणण में लव कुश रामलीला मलीला आयोजन पर मुख्य अतिथि देशखाप पं सुभाष शर्मा को प्रतीक अभिनंदन किया गया। इसके अलावा त किया गया। गणमान्य लोगों ने सभी अवसर पर दिव्य, भव्य एवं मनमोहक व कुमार शर्मा, कंडी शर्मा, डा. मनोज रामलीला कमेटी, का समस्त स्टाफ

शाह टाइम्स संवाददाता

बड़ोता। नगर में श्रीकृष्ण महाराज
संवाद चर भरत मिलाप का दर्शय
से अपनी नाव में बैठकर गंगा प
मना कर दिया। हे प्रभु, मैंने सुना
में तुझा जादू है कि एक चरण भ
को है। अगर आपके पत्थर प
रोड़ी-रोटी का क्या होगा? मैं उ
आगे कहा कि वह उन्हें तभी न
उनके चरण धो लेगा। उसने कह
है। वह भगवान को चरणों को
धोना चाहता था।

ट से अपनी नाव में
राने का किया आग्रह

कुन्दद्वारा प्रेम मण्डल रंगमंच पर केवट शाय गया। जब भगवान राम ने केवट कराने का आग्रह किया, तो केवट ने के आपके चरण रज (पैरों की धूल) स्त्री बन गया। मेरी तो यह नावलकडी से यह भी स्त्री बन गई, तो मेरी मेरा परिवार कैसे जिएंगे? केवट ने मार कर अपना जब वह अपने हाथों से क यह उसका डर नहीं, बल्कि भक्ति अपने और अपने पूर्वजों के पापों को

कब्जे को लेकर लोगों का धरना जारी

अधीक्षक सूरज राय ने बताया कि वंश पवार आत्महत्या मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो भी नाम

सामने आएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रताप सिंह गुर्जर, प्रदीप धामा, हिम्मत सिंह, आशू ठाकुर, इंद्रपाल, जितेंद्र कुमार, देवकांत शर्मा आदि मौजूद रहे।

शाह डाइमंड संवाददाता
टीकरी। कस्बे में शमशान घाट की
भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर
स्थानीय लोगों का धरना नावें दि-
जी जारी रहा। कस्बावासियों का
आरोप है कि कुछ लोगों ने शमशा-
न घाट की भूमि पर कब्जा कर अवैध
निर्माण कर लिया है। इस मामले में
पहले भी कच्चा हटाने के आदेश
जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक
कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकां-
श रियों ने अब दिन का समय दिया

है। राजस्व विभाग की टीम ने मौक़ का सर्वे किया। लेखपाल और कानूनगो ने अपनी जांच रिपोर्ट तब सीलदार बड़ीत को सौंप दी है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि जब तक अद्वैत कब्ज़ा नहीं हटेगा, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस धरने में विनोद राठी, अमिता कुमर, रमेश, इंद्रपाल, ओमवीर सोमपाल, देशपाल, तेजपाल सुभाष और मनोज, विकास और पुष्पेंद्र समेत कई लोग मौजूद रहे।

छात्राओं को स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनाना हमारी प्राथमिकता



को बुझायां बैठियां हुई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि बैठियां हमारे समाज और राष्ट्र की अत्मा हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान मिले। मिशन शक्ति 5.0 का यही संकल्प है कि कोई भी बच्चा अवसर से वंचित न रहे। आज हमें यह वादा



करना होगा कि हम बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समुद्र समाज की पहचान उसका बेटियों की मुस्कान से होती है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अंकशकरी, डिप्टी सीएमओ डा. यशवंत सिंह आदि मौजूद रहे।

साह टाइम्स संवाददाता
छपरील। शुक्रवार को श्रीराज्ञा सागर दिग्गज जैन कन्या इंटर कॉलेज में व्यक्तित्व स्वच्छता जागरूकता अभियान के अंतर्गत छात्रां जेन द्वारा स्वच्छ परिसर में छात्रां के लेल व्यक्तित्व स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का समुपलवार्थक आयोजन किन्तु ग्या। चार्नी जेन ने छात्रां को संबोधित करते हुए बताया कि स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छ और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व के प्रति शिथिल और संवेदनशील बनाना है। अभियान के दौरान, चार्नी जेन द्वारा छात्रां को व्यक्तित्व स्वच्छता के बुनियादी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विशेष रूप से हाथ धोने की सही तकनीक



मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन और दांतों व नाखूनों की देखभाल से महत्व पर जोर दिया। कार्यक्रम में एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया गया, जहाँ छात्राओं ने खुले तौर पर अपने प्रश्न पूछे और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। छात्राओं को यह भी बताया गया कि



किस प्रकार व्यक्तिगत स्वच्छता का सीधा संबंध बीमारियों का रोकथाम, बेहतर एकाग्रता और आत्म-सम्मान में वृद्धि से है। हमारा मानना है कि शिक्षा केवल अच्छाई का एक नहीं होता। छात्राओं को स्वास्थ्य और जिम्मेदार नागरिक बनाने हमारी प्राथमिकता है।

शाह टाइटम सेवददाता
बागपति। मां कृष्णदा की शरीर से
कृष्णदा की प्रकाश से प्रकाशमान
खुआनी में कमल-लवंग, बुध, पाण
दा जकारि आठवीं खुआ में
सखी सिद्धियों और निधियों का
साहस का प्रतीक सिंह है। न्यून-
बताया मां कृष्णदा का पुत्र
है और उस खुआनी मातृ पर
अपने खुआनों पर सहज की प्र-
साधक को सांसिरिक और आ-
माता साधक को रंग, शोके से मु-
क़रती है। माता के इस स्वरूप के
कोशल और बुद्धि का शुद्धिक के
को जगदकारिसे मरिच में पंडित
सत्पत्नी का पाद किया। इसके
किया गया। शनिवार पर माता
किया जाए। स्कंदमाता की गो-
है उन्हीं के मां पर इतना नाम
तहसील मोहल्ले में पड़ना।

आख्या सूर्य के समान है। दसों दिशाएँ होती हैं। क्यूँदा आठ खानाएँ हैं, सत कमल पवन, अमृत करारा, सत और माली हैं। माता कुँहड़ा साधक को ले जाती हैं। उनका वाहन शक्ति और करपा पंडित उज्जुक्कार शास्त्री ने करने से साधक को मान मिलन होठा हो जाते हैं। उनका पुत्र पुत्र करने से सक्ति उन्नीक का वरदान मिलता है। कर अथ, यश, बल और बुद्धि प्रदान करे। विद्या-विषय से पुत्र बनने से जान, रुकें एवं कार्य सफल होते हैं। शुक्रवार कर दिवसी ने पुत्र और फिर दुर्गा पर आरती और फिर प्रभाव विवर्तित पाँचवें स्वरूप कन्दमाता का पुत्र काव्य के माता वलरूप ने विरागमन दीनमाता वला। अथ नरन को प्राणी की में पंडित हर्ष कुमार शास्त्री ने

शाह टाइटम्स संबाददाता
ब्रागपतर। जिलाधिकारी ने बताया
कि नव स्टंपर सेंटर को स्थापना एक
ही छत के नीचे हिस्सा पुरिफिकेशन
महिलाओं को परामर्श, मुक्ति
सहायता, कानूनी मदद, चिकित्सा
सुविधा और अन्य संपर्क उपलब्ध
कराने के लिए को माँ है। यह
वैकिंग सुविधा हेतु वैकिंग प्लेस
और आधार संपर्क को भी स्थापित
किया गया है। साथ ही महिला
हेल्पलाइन भी संचालित है, जहाँ
कॉई भी महिला टोल फ्री नंबर पर
कॉल कर सहायता ले सकती है।
आज 08 मई 2020 ने जिलाधिकारी
से संबंद्ध किया। उनको
समस्याओं के समाधान हेतु जिला
धिकारी ने संबंधित अधिकारियों
को निर्देश दिए और कहा कि सभी
मदद संपर्क को योजनाओं के

अंतर्गत दी जाएगी। उन्होंने महिलाओं को अपने हृदय से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सरकार आपके साथ है, योजनाओं से जुड़े और आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने कहा बेटियों को शिक्षित करें, अच्छे संस्कार दें और उन्हें कामयाब बनाएं। जलांधकारी ने विधान सभाओं जैसे 1090 (चूने पावर लाइन), 181 (महिला हेल्थप्लान), 108 (एम्प्लेसेड सेक्टर), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्थप्लान), 112 (पुलिस आपातकालीन सेवा), 1098 (बाबुल लाइन), 102 (ग्रामस्थ सेवा) आदि के बारे में जानकारी दी और कहा कि ये सेवाएँ महिलाओं के कल्याण हेतु संचालित हैं।

मिशन शक्ति व



तहत डीएम ने

बाँलकाओं से पारस्परिक संवाद किया। जिलाधिकारी ने उनकी समस्याएँ सुनीं और संबंधित मामलों की निस्तारात करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि घर-परिवार में प्रेम भाव से रहा जाए और छोटी-मोटी आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा संचालित योजनाओं

किया वन स्टॉप पर

टार कारिरीक्षण

आनिधनंभर, सरक्षा औ शक्तिशाली बन सके। उन्हेन के एक विशिष्ट बंदो दो कुल के योग्य करी है, इसलिये बेटीयां के अच्छे सहायक औ शिशा अवसर है, ताकि रात्र निपणन में उत्तम भूमिका भवकुव हो सके। उन्हेन (टारों) नीरी शिशा, नारी सरक्षा औ नारी स्वयंवरलोक के प्रारम्भिकता खता। हवा क हिसाब में नकारात्मक परंपरा औ व कुरीयों को समाप्त कराने आवश्यक है। जिस मिलक को आ सम्मत्य है, उस अपर आवाज उठाने होगी, एवानी नही होगी। इस अवसर पर अथ विलोकनिकारिरीवा/राज्यके अन्तर्गत विलोकन प्रोशान अधिकारी अमरचल में मुख्य विलोकन अधीक्षक अनुमण्डल, केंद्र प्रशासक नारी शर्म सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

[illegible]

विटामिन का किन्ना सम्मान

जिजित एक विशेष कार्यक्रम में थाना को एक सप्ताहनीय निकाय में लिए जा रहे थे। प्रमुख प्रिजिपल तथा महिल सचर्यनी को प्रशस्ति पत्र दिए हुँट। सचर्यनी में एसआर रीतु काजल, हँट यादव एक कोस्टेयनर रीली मोलर काजल अथिया, महिल सुराष्टा अथिया, नमिजत किरण हँट कर कानी को नमिजत सफाया हुँट। कार्यक्रम में प्रशस्ति वकनाओं न कहा कि मिशन विजित जैनी फलत माहा कि महिल सचर्यनी को प्रशस्ति, विव्यास अथिया, प्रमिजत नमिजत किरण हँट निरुषा प्रान्त कर कानी को प्रमिजत सचर्यनी में कहिल सचर्यनी को प्रमिजत सचर्यनी का संरुषा रीतु प्रशस्ति कर रहा हँट।

UPHIN/2007/20661
www.shahtimesnews.com
email:shahtimes2015@gmail.com

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु PRB एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

शाह टाइम्स

सम्पादकीय

शनिवार , 27 सितम्बर 2025

हड़बड़ाहट में ट्रम्प

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेहद हड़बड़ी में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के लिए इस तरह का आचरण बिल्कुल शोभा नहीं देता। एक तरफ भारत व अमेरिका के अधिकारी व्यापारिक डील को लेकर व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस वार्ता का नतीजा आए बिना ही डोनाल्ड ट्रम्प इस तरह की घोषणा कर देते हैं जो रिश्तों को और उलझा देती है। इस समय भारतीय प्रतिनिधिमंडल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में अमेरिका गया हुआ है। जहां उसने 22 से 24 सितम्बर तक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और भारत के लिए नामिक अमेरिकी राजदूत सर्जियो के साथ बैठक की। बैठक के बाद दोनों ही पक्षों ने माना है कि समझौते के विभिन्न पहलुओं पर रचनात्मक बैठक हुई। इस बीच डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रांडेड या पेटेंट दवाई पर सी फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं यह टैरिफ एक अक्टूबर से लागू होने की बात भी कही है। हालांकि यह टैक्स उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। जैनरिक दवाओं को अभी इस टैरिफ से बाहर रखा गया है। हालांकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगला निशाना जैनरिक दवाइयां भी हो सकती हैं जैसाकि जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लि. के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा भी है कि भारत जो जैनरिक दवाओं का एक्सपोर्टर है, उसे इससे ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि राष्ट्रपति का अगला निशाना जैनरिक दवाएं हों। जैनरिक दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है। 2024 की ही बात करें तो भारत ने अमेरिका को लगभग 8. 73 अरब डॉलर की जैनरिक दवाइयां भेजी। जो भारत के कुल दवा एक्सपोर्ट का 31 फीसदी है। अमेरिका पहले से ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है। यहां यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 16 सितम्बर को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय का एक दल भारत आया था और उसकी नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस समय भी यह कहा गया था कि बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। तो जब दोनों ही पक्षों के अधिकारी बातचीत को सकारात्मक बता रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आखिर वह क्या चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समय-समय पर वह प्रशंसा करते दिखाई देते हैं, उन्हें अपना मित्र बताते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वह भारत के साथ इस तरह के निर्णय लेने में देर नहीं लगाते जिससे भारत की स्थिति असहज हो जाती है। जाहिर है इस तरह के वातावरण में भारत को बेहद सतर्कता के साथ अमेरिका से ट्रेड के मामले में आगे बढ़ने की जरूरत है।

भाजपा का दूसरा नाम पेपर चोर

आज भाजपा का दूसरा नाम पेपर चोर है, देशभर में बार-बार होने वाले पेपर लीक ने करोड़ों मेहनती युवाओं की ज़िंदगी और सपनों को तबाह कर दिया गया है, उत्तराखंड का पेपर लीक कांड इसका ताजा उदाहरण है, लाखों युवाओं ने दिन-रात मेहनत की, लेकिन भाजपा ने चोरी से उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी सिस्टम बनाया जाए, लेकिन मोदी सरकार इस पर आंखें मूंदकर बैठी है क्योंकि उन्हें युवाओं की बेरा. जगारी की नहीं, बल्कि अपनी सत्ता की चिंता है, बेरोजगारी आज देश की सबसे बड़ी समस्या है और यह सीधे तौर पर वोट चोरी से जुड़ी है. पेपर चोरों को पता है कि अगर युवाओं को रोजगार नहीं भी मिलेगा, तो भी वे चुनाव में वोट चोरी करके सत्ता में बने रहेंगे।

–**राहुल गांधी, नेता विपक्ष, लोकसभा**



पर्यटन केवल मनोरंजन, सैर-सपाटे या विश्राम का माध्यम नहीं है बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास में निरंतर योगदान देने वाला एक ऐसा वैश्विक उद्योग है, जिसने संस्कृतियों को जोड़ा, विविधताओं को समझने का अवसर दिया और आर्थिक समृद्धि के साथ सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया। विश्व पर्यटन दिवस 2025 का विषय ‘पर्यटन और सतत परिवर्तन’ इसीलिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि यह न केवल पर्यटन उद्योग के महत्व को रेखांकित करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि पर्यटन किस प्रकार दुनिया में सकारात्मक बदलाव का वाहक बन सकता है। ' संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ' द्वारा प्रतिवर्ष 27 सितम्बर को मनाया जाने वाला यह दिवस विश्व समुदाय को पर्यटन के बहुआयामी महत्व और इसके दूरगामी प्रभावों पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है।

पर्यटन का दुनिया की अर्थव्यवस्था में स्थान असाधारण है। वैश्विक स्तर पर यह उद्योग प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न करता है और करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्टों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक दस में से एक नौकरी पर्यटन से जुड़ी है। विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में भी यह एक प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है। भारत की बात करें तो यह क्षेत्र देश की जीडीपी में लगभग 10 प्रतिशत योगदान देता है और सीधे या अपरोक्ष रूप से पांच करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। विश्व पर्यटन दिवस का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह हमें केवल आर्थिक आंकड़ों की चमक पर नहीं बल्कि उन सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जिन्हें पर्यटन उद्योग के सतत विकास के लिए प्राथमिकता देना आवश्यक है।

पर्यटन सामाजिक समानता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने का सशक्त माध्यम है। जब एक यात्री किसी दूसरे देश, राज्य या संस्कृति से जुड़ता है तो यह केवल यात्रा नहीं होती बल्कि यह संवाद, सहअस्तित्व और समझदारी का अवसर बनती है। एक ओर यह यात्रियों को नए अनुभव और दृष्टिकोण प्रदान करता है तो दूसरी ओर स्थानीय समुदायों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को साझा करने का अवसर देता है। यही कारण है कि पर्यटन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पारंपरिक कलाओं, शिल्प और रीति-रिवाजों को पुनर्जीवित करने में मदद

प्रकृति, संस्कृति और समाज को जोड़ता सतत पर्यटन

करता है। कई बार जो कला या परंपरा लुप्त होने के कगार पर होती है, वह पर्यटन के कारण नए जीवन का संचार प्राप्त करती है। विश्व पर्यटन दिवस 2025 का केंद्रीय विचार पर्यटन को परिवर्तनकारी शक्ति है और यह परिवर्तन तभी संभव है, जब पर्यटन विकास के केंद्र में स्थिरता, लचीलापन और सामाजिक समानता को रखा जाए। आधुनिक समय में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियां पर्यटन के समक्ष सबसे बड़ी बाधाएं बनकर उभरी हैं।

पर्यटन का अत्यधिक और अनियंत्रित विकास कई बार प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ देता है। पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक पर्यटकों का दबाव ग्लेशियरों और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रतिकूल असर डालता है, समुद्र तटों पर अनियंत्रित पर्यटन समुद्री जीवन को खरों में डालता है और ऐतिहासिक धरोहरों पर भीड़भाड़ से उनका संरक्षण कठिन हो जाता है। यही कारण है कि ‘सतत पर्यटन’ की अवधारणा आज सर्वाधिक चर्चा में है। सतत पर्यटन का अर्थ है ऐसा पर्यटन, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, स्थानीय समुदायों को अधिकतम लाभ मिले और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षित रहे। इस दिशा में अनेक देशों ने उल्लेखनीय पहल की है। उदाहरणस्वरूप, भूटान ने पर्यटन पर ‘हाई वैल्यू, लो वॉल्यूम’ नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत वह पर्यटकों की संख्या सीमित रखते हुए गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्रदान करता है ताकि पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संत. लुप्त न बना रहे। इसी प्रकार यूरोप के कई देशों ने ‘ग्रीन टूरिज्म’ मॉडल को अपनाकर पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी है। भारत में भी सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें इको-टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। पर्यटन का महत्व शिक्षा और कौशल विकास के संदर्भ में भी कम नहीं है। यह न केवल यात्रियों को नई संस्कृतियों और भौगोलिक क्षेत्रों से परिचित कराता है बल्कि



युवाओं को आतिथ्य, प्रबंधन, संचार और सांस्कृतिक समझ जैसे कौशल सीखने के अवसर भी देता है। भारत जैसे देश, जहां युवाओं की जनसंख्या बड़ी संख्या में है, पर्यटन क्षेत्र के माध्यम से विशाल रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान कर सकते हैं। छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में होम-स्टे, स्थानीय गाइड सेवा, पारंपरिक व्यंजन और हस्तशिल्प आधारित पर्यटन न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। पर्यटन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष शांति और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। जब विभिन्न देशों के लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं तो यह न केवल सांस्कृतिक समझ को बढ़ाता है बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग की नींव भी रखता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी पर्यटन को ‘शांति का दूत’ कहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी देशों के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ा है, आपसी संबंध मजबूत हुए हैं। इसीलिए पर्यटन को केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैश्विक शांति और सहयोग की दिशा में एक प्रभावी उपकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।

डिजिटल तकनीक ने पर्यटन उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। ऑनलाइन बुकिंग, वर्चुअल टूर, एआई आधारित ट्रैवल गाइड और स्मार्ट पर्यटन समाधान ने यात्रियों के अनुभव को न

केवल सरल बनाया है बल्कि अधिक सुलभ और सुरक्षित भी बनाया है। हालांकि तकनीक के उपयोग के साथ-साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। यात्रियों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। केवल सरकार या उद्योग नहीं बल्कि प्रत्येक यात्री को भी यह समझना होगा कि उसकी छोटी-सी आदतें पर्यटन को सतत और परिवर्तनकारी बनाने में योगदान कर सकती हैं। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश के लिए यह अवसर और चुनौती दोनों है।

यहां हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर केरल की बैकवॉटर्स, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर की हरियाली, वाराणसी के घाटों से लेकर कश्मीर की वादियों तक असीमित संभावनाएं हैं लेकिन इन संभावनाओं के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी जुड़ा हुआ है। अगर पर्यटन को अनियंत्रित और असंतुलित तरीके से बढ़ने दिया गया तो यह न केवल प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि स्थानीय समुदायों और सांस्कृतिक विरासत को भी प्रभावित करेगा। इसलिए पर्यटन विकास की हर नीति में स्थिरता और समावेशिता को प्राथमिकता देनी होगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

नमकीन स्राव से पनपता रेगिस्तानी पौधा

व्यापक शोध के बाद अल-हंदावी और उनकी टीम ने पाया कि दिन के समय में उत्सर्जन से बने नमक के रवे रात में पानी सोख कर फूल जाते हैं। टीम द्वारा की गई जांच से साबित हुआ कि जल संचयन में लवणों का प्राथमिक योगदान है, क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से रवेदार परत वाली शाखाएं धुली हुई शाखाओं की तुलना में काफी अधिक पानी एकत्र करती है। यहां तक कि 50 प्रतिशत से कम आर्द्रता पर भी रवों पर ओस बन सकती है। एथल टमारिस्क की विशिष्टता इसके द्वारा उत्सर्जित लवणों का जटिल मिश्रण है।

मध्य पूर्व के शुष्क क्षेत्र में एथल टमारिस्क Tamari aphylla नामक एक रेगिस्तानी पेड़ जिंदा रहने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाता है। यह पौधा झुलसाने वाली गर्मी में पानी प्राप्त करने के लिए नमकीन स्राव का फायदा उठाता है। प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडेमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित यह अध्ययन संकेत देता है कि पौधे दूधर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए किस तरह के रासायनिक जुगाड़ करते हैं। गौरतलब है कि लवण से समृद्ध तटीय मिट्टी में पनपने वाला यह पौधा एक लवणमृदोदिभद (हैलोफाइट) है जो अतिरिक्त लवण को ग्रंथियों से बूंदों के रूप में स्रावित करके पत्तियों पर जमा करता है। जैसे-जैसे दिन गर्म होता है, इन चमकदार बूंदों का पानी तो वाष्पित हो जाता है जिससे पौधे पर सफेद रवों की परत जम जाती है जो अंततः तेज हवा से झड़ जाते हैं।

इस रणनीति का खुलासा तब हुआ जब अबू धाबी स्थित न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक मारिएह अल-हंदावी ने संयुक्त अरब अमीरात के गर्म, आर्द्र रेगिस्तानों से गुजरते समय इन रवों पर पानी को संधानित होते देखा। उनका अनुमान था कि इस प्रक्रिया में उत्सर्जित लवण-मिश्रण के रासायनिक संघटन की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। व्यापक शोध के बाद अल-हंदावी और उनकी टीम ने पाया कि दिन के समय में उत्सर्जन से बने नमक के रवे रात में पानी सोख कर फूल जाते हैं। टीम द्वारा की गई जांच से साबित हुआ कि जल संचयन में लवणों का प्राथमिक योगदान है, क्योंकि विशिष्ट परिस्थितियों में प्राकृतिक रूप से रवेदार परत वाली शाखाएं धुली हुई शाखाओं की तुलना में



काफी अधिक पानी एकत्र करती है। यहां तक कि 50 प्रतिशत से कम आर्द्रता पर भी रवों पर ओस बन सकती है। एथल टमारिस्क की विशिष्टता इसके द्वारा उत्सर्जित लवणों का जटिल मिश्रण है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, जिप्सम (कैल्शियम सल्फेट) और एक अन्य घटक-लीथियम सल्फेट- शामिल है जिसमें सोडियम क्लोराइड और जिप्सम की अपेक्षा कम आर्द्रता पर भी नमी को अवशोषित करने की क्षमता कहीं अधिक होती है। कई विशेषज्ञों के अनुसार यह अध्ययन एक नए स्तर की समझ प्रदान करता है जिससे यह पता चलता है कि कैसे रेगिस्तानी पौधे लवणों से

छुटकारा भी पाते हैं और हवा से पानी संचय के लिए इनका उपयोग भी करते हैं। इन लवणों का संघटन रेगिस्तानी पौधों द्वारा विकसित जटिल रणनीतियों को उजागर करता है। शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह अध्ययन अन्य रेगिस्तानी पौधों में भी इस प्रकार की विशेषता का संकेत देता है। संभव है कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए हर पौधे के पास कोई विशिष्ट गुप्त नुस्खा हो। बहरहाल, इस अध्ययन से हमें विश्व भर में पानी की कमी से निपटने के तरीके के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है जो आगे खोज की संभावना का संकेत देती है। –**स्रोत फीचर्स**

सभी रोगों की जड़ है आपका मोटापा

चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि मोटापा आने से जीवन में पाबंदियों और परेशानियों के बढ़ जाने से जीवन की खुशियों में कमी आने लगती है और यही नहीं मोटापे से युक्त बड़ोल शरीर अनेक बीमारियों को निमंत्रण देता है। यह सच ही है मोटे और थुलथुल शरीर की एक ओर तो लोग हंसी उड़ाते हैं, वहीं दूसरी ओर यह अनेक रोगों की जड़ भी होता है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति अन्य कई शारीरिक समस्याओं से घिर जाता है जैसे मोटापे से पीड़ित व्यक्ति के रक्त संचार में बाधा पहुंचती है। इस के साथ ही खतरा बढ़ जाता है हाई ब्लडप्रेशर, हार्ट अटैक जैसी कई अन्य जानलेवा बीमारियों का। खून की नलिकाओं में कैल्शियम व वसा की परत चढ़ जाती है, जिससे वे संकरी हो जाती हैं। इसी वजह से रक्त सामान्य रूप से नलिकाओं में नहीं बह पाता। इस प्रकार मोटे व्यक्ति के रक्त संचार में रुकावट पैदा होती है।

ज्यादा मोटापा होने पर आदमी अगर थोड़ा सा भी काम करे, तो वह हाफने लगता है अर्थात उसकी सांस फूलने लगती है, साथ ही वैंरीकोस वेंस (शिराओं के अवरूद्ध होकर फूल जाना) हार्निपा, श्वसन तंत्र का संक्रमण जैसी बीमारियां भी मोटे व्यक्ति को आ घेरती हैं। जिसके कारण मोटा व्यक्ति पराश्रित हो जाता है। मोटापा मधुमेह रोग के लिए खुला निमंत्रण होता है। मोटे व्यक्ति मोटापे के बुरे प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं इसीलिए वे भीतर से काफी डरे हुए व हीनभावना का शिकार होते हैं। दवा, गोली, व्यायाम के साथ-साथ मोटापा कम करने के लिए आपरेशन भी एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति है। इसके अन्तर्गत दो प्रकार से मोटापे को दूर किया जाता है।

एक में आमाशय का आकार कम कर दिया जाता है और दूसरे में, छोटी आंत की बाईपास सर्जरी करके मोटापे को दूर किया जाता है। मोटापे की वजह कम से कम श्रम करने वाली आधुनिक जीवन शैली है, ऐसा चिकित्सा विशेषज्ञ मानते हैं। यह ज्यादातर मध्य आयु वर्ग में शुरू होता है पर यह जरूरी नहीं कि यह मध्य आयु वर्ग में ही हो, यह किसी भी आयु वर्ग में शुरू हो सकता है।

मोटापा एक वंशानुगत रोग होता है। इसलिए जिन के परिवार में कोई भी मोटापे से भूतकाल या वर्तमान में परेशान हो तो उनको इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। स्टैरोइड्स इसीलिए और गर्भ निरोधक गो丸ियां आदि कुछ दवाएं भी मोटापे की वजह बन सकती हैं। कुछ बीमारियों के कारण मोटापा होता है जैसे थायरायड ग्रंथि का कम काम करना (हाइपो थायरायडिज्म), पिट्यूटरी ग्रंथि का कम काम करना, (हाइपो पिट्यूटैरिज्म), कशिरिंग सिंड्रोम (एड्रीनल ग्रंथि का अधिक काम करना), हाइपा. गोनैडिज्म (सेक्स ग्रंथियों का कम काम करना) इत्यादि। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि हर एक ग्राम वसा से नौ कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन होता है और उनका करना है कि हमें हर रोज 800- 1600 कैलोरी का ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। चिकित्सकों के अनुसार शराब पीने वालों को तो शराब का सेवन निश्चकल कम कर देना चाहिए, क्योंकि 30 सीसी व्हिस्की में पानी मिला कर पीने से 70 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी व्यक्ति को कितनी ऊर्जा (कैलोरी) की आवश्यकता होती है, यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। एक व्यस्क पुरुष को 2600 एनर्ज व्यस्क स्त्री को 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक आराम की ज़िंदगी जीने वाली स्त्री को 2000 और

पुरुष को 2400 कैलोरी की जरूरत पड़ती है।

मध्यमश्रमी पुरुष को 2600, अधिक परिश्रमी पुरुष को 3500 और कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को 4100 कैलोरी आवश्यक होती है। आप कितने मोटे हैं इसका अनुमान आप अपने वजन को देखकर लगा सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, तो 45 किलोग्राम आपके लिए कम वजन, 56.70 किलोग्राम सामान्य वजन है और यदि आप का वजन 85 किलोग्राम है, तो आप मोटे हैं और अगर आप का वजन 113 किलोग्राम है, तो आप ज्यादा मोटे हैं। अगर आप मोटे हैं, तो 0.5 से 1 किला. ग्राम भार प्रतिमाह कम करने की टान लें। इसके लिए व्यायाम करना काफी हद तक लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा की खपत होती है। कई परिश्रम के समय 10 किलो कैलोरी खेलकूद और साइकिल चलाते समय सात किलो कैलोरी तथा दहलते समय पांच किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति मिनट खर्च होती है। मोटापा एक ऐसी चीज है, जिसके कारण आप दूसरों के द्वारा उपहास का केन्द्र बन सकते हैं। अतः हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। खानपान की अच्छी आदतों का पालन करना चाहिए। तली हुई चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। रोज व्यायाम



व खेलकूद से भी शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है।

मोटापे को दूर करने के लिए कई प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आइए इनके बारे में जानें।

एंफीटामीन- इस दवा का इस्तेमाल आजकल कम होता जा रहा है, क्योंकि यह दवा दिमाग में ज्यादा उत्तेजना पैदा कर देती है और इससे भूख भी बहुत कम ही घटती है, जबकि चिकित्सक ज्यादा भूख घटाने की आशा करते हैं।

सीरोटोनीनार्जेक दवाएं- जैसे डेक्सफेन फ्लोरेमीन, फेन लोरेमीन आदि। इन दवाओं का इस्तेमाल उस स्थिति में किया जाता है, जबकि वजन बहुत तेजी से कम करना हो।

जैसे हाई ब्लडप्रेशर या मधुमेह में ये दवाएं भूख घटाने की जगह व्यक्ति की

तृप्ति का अहसास देती हैं।

कोलीसिस्टो कायनीन दवाईया- इस प्रकार की दवाएं भूख को शांत करती हैं। इन सबके अलावा आंतों के (लाइपेज एंजाइम) को निष्क्रिय करने वाली दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है।

वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा मंजूर नहीं: ट्रम्प

कहा: मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, नेतन्याहू के अगले हफ्ते अमेरिका आने पर इस मुताल्लिक होगी बातचीत

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वेस्ट बैंक (फलस्तीन का हिस्सा) पर इजरायल का कब्जा मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे कभी इसकी इजाजत नहीं देंगे। हाल ही में इजरायल के अधिकारियों ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को इजरायल में मिलने की बात कही थी। इस पर ट्रम्प ने ओवल आफिस में कहा, मैं इजरायल को वेस्ट बैंक को मिलाने की परमिशन नहीं दूंगा।

ऐसा नहीं होगा। अब बहुत हो चुका है। इस हफ्ते फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने फलस्तीन को मान्यता दी है। इस फैसले का इजरायल ने विरोध किया था। इसके बाद वेस्ट बैंक पर कब्जे को लेकर इजरायली अधिकारियों को बयानबाजी शुरू हो गई थी। नेतन्याहू अगले हफ्ते सोमवार को अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। ट्रम्प



■ इस हफ्ते फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने फलस्तीन को मान्यता दी है
■ इस फैसले का इजरायल ने विरोध किया था
■ ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में नेतन्याहू का यह चौथा वाशिंगटन दौरा है

के दूसरे कार्यकाल में नेतन्याहू का यह चौथा वाशिंगटन दौरा है। वेस्ट बैंक, जार्डन के पश्चिम और यरुशलम के पूरब में स्थित है। 1948 में अरब-इजरायल जंग के बाद जार्डन ने इस पर कब्जा कर लिया था। जार्डन नदी के पश्चिम में होने की वजह से तब इसका नाम वेस्ट बैंक रखा दिया गया। 1967 में 6 दिनों तक चले जंग के बाद इजरायल ने इस

इलाके को जार्डन से छीन लिया। तब से वेस्ट बैंक पर इजरायल का कब्जा बरकरार है। इस इलाके में 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसमें ज्यादातर फलस्तीनी हैं। इजरायल ने वेस्ट बैंक पर कब्जे के बाद कई यहूदी बस्तियां भी बसाईं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक यहां बनाई गई इजरायली बस्तियां अवैध हैं। ट्रम्प लंबे समय से नेतन्याहू के

करीबी सहयोग का दावा करते रहे हैं। लेकिन उन पर अब अरब नेताओं का दबाव भी है। संयुक्त अरब अमीरात ने चेतावनी दी है कि किसी भी इजरायली कब्जे को रेड लाइन माना जाएगा।

ट्रम्प ने कहा है कि वो इजरायल को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने देंगे, जिससे अरब देशों के नेताओं में नाराजगी हो। 1967 के युद्ध में इजरायल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी पर कब्जा किया था। फलस्तीनियों की मांग है कि ये तीनों क्षेत्र भविष्य में उनके राज्य का हिस्सा होने चाहिए। मानना है कि इजरायल का कब्जा ट्रस्ट सॉल्यूशन (दो राष्ट्र समाधान) या अलग फलस्तीनी देश बनाने की संभावना को खत्म कर देगा। इजरायल की मौजूदा सरकार फलस्तीनी देश के बनने का विरोध करती है और वेस्ट बैंक के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को अपने में मिलाना चाहती है।



बिहार। मोतीहारी में हर घर अधिकार रैली में शामिल होतीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रैली में अपार भीड़ से मददगार नजर आईं।

UNRWA के लिए धन, राजनीतिक समर्थन का आग्रह

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को निकट पूर्व में फलस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के लिए धन और राजनीतिक समर्थन का आग्रह किया।

गुटेरेस ने यूएनआरडब्ल्यूए के समर्थन में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में कहा कि मैं आज आपसे अपील करता हूँ कि आप यूएनआरडब्ल्यूए को आवश्यक धनराशि और राजनीतिक समर्थन प्रदान करें, ताकि फिलस्तीनियों, इजरायिली और क्षेत्र के लिए शांति एवं स्थिरता का निर्माण किया जा सके। अपने संबोधन में, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि फलस्तीनी शरणार्थियों की कई पीढ़ियां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सेवाओं के

■ यूएनआरडब्ल्यूए को बढ़ते दबाव में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है

लिए यूएनआरडब्ल्यूए पर निर्भर रही हैं। अक्टूबर 2023 से पहले, इसने पूरे क्षेत्र में पांच लाख लड़कियों और लड़कों को स्कूली शिक्षा प्रदान की। आज यह 26 लाख लोगों को आपातकालीन भोजन और नकद सहायता प्रदान करता है और इसके प्राथमिक क्लिनिकों में प्रति वर्ष 1-5 करोड़ लोग आते हैं। गुटेरेस ने कहा कि इन सबके बावजूद, यूएनआरडब्ल्यूए को अत्यधिक और बढ़ते दबाव में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इसके कर्मचारी गाजा में मारे जा रहे हैं, इसके परिसर नष्ट हो गए हैं, और इसे बजट की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

यमन में इजरायल का बड़ा हवाई हमला

सना। यमन की राजधानी सना में इजरायल के भयावह हवाई हमले में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। शुक्रवार को इस बात की जानकारी यमन के हथी विद्रोहियों ने दी। यह हमला गुरुवार को हुआ था, जो इजरायल और ईरान समर्थित हथियों के बीच गाजा युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव का हिस्सा है। इससे पहले गुरुवार को हथियों द्वारा दक्षिणी इजरायल के ईलात शहर में ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 22 लोग घायल हुए थे, जिसके जवाब में इजरायल ने ये हमला किया। मामले में हथी नियंत्रित क्षेत्र की स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मरने वालों में चार बच्चे, दो महिलाएं और तीन बुजुर्ग शामिल हैं। इसके अलावा 59 बच्चे, 35 महिलाएं और 80 बुजुर्ग घायल हुए हैं। राहत कर्मी मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं,

■ चार बच्चे समेत नौ की मौत, कई लोग घायल

इसलिए मौतों की संख्या बढ़ सकती है। इजरायली सेना ने कहा कि उन्होंने सना में हथी सैन्य कमांड सेंटर, कैंप और सुरक्षा केंद्रों को निशाना बनाया। वहीं हथी प्रवक्ता ने दावा किया कि इजरायली हमले ने आवासीय इलाकों और बिजली सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनकी सुरक्षा प्रणालियों ने हमला रोकने में मदद की। ऐसे में अब बात अगर सना के निवासी की करें तो उन्होंने इस हमले के बारे में बताया कि एक हमले में एक भवन क्षतिग्रस्त हुआ, जहां हथी नेता रहते थे। विस्फोट इतना जोरदार था कि आस-पास के कई घर और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट के बाद पूरा इलाका धूल और काले धुंसे से भर गया था।

कंबोडिया से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर टग गिरोह का भंडाफोड़ चार लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली साइबर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर टग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके तार कंबोडिया में सक्रिय धोखेबाजों से जुड़े पाए गए हैं। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चार अत्याधुनिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह गिरोह नकली ट्रेडिंग ऐप बनाकर लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहा था। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बुलंदशहर निवासी मनीक अग्रवाल (25), अबुल्ला उर्फ लुसिफर (23), मोहम्मद आमिर उर्फ रॉकी (26) और शनमिया खान के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता टी-सिंह ने बताया कि 10 जून 2025 को उन्हें 101 शून्य वेल्थ सर्किल नामक एक व्हाट्सएप समूह में जोड़ा गया।

शहबाज-मुनीर से मुलाकात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे ट्रम्प

पाकिस्तानी पीएम और आर्मी चीफ को 30 मिनट इंतजार कराया

वाशिंगटन। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने गुरुवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की। बैठक से पहले ट्रम्प ने शहबाज को करीब 30 मिनट तक इंतजार कराया। इस दौरान ट्रम्प प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। दरअसल पाक पीएम रात करीब 2 बजे व्हाइट हाउस पहुंचे थे। उस वक्त ट्रम्प कार्यकारी आदेशों पर साइन कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

इस दौरान शहबाज व्हाइट हाउस में ही ट्रम्प का इंतजार करते रहे। बाद में दोनों के बीच करीब 1 घंटा 20 मिनट तक बैठक चली। यह मुलाकात व्हाइट हाउस में बंद कमरे में हुई। इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया। व्हाइट हाउस की तरफ से ट्रम्प और शरीफ-मुनीर की बातचीत को लेकर कोई तस्वीर या वीडियो अब तक जारी नहीं की गई। अमूमन अमेरिकी राष्ट्रपति जब किसी विदेशी नेता से मिलते हैं, तो व्हाइट हाउस आधिकारिक तस्वीरें जारी करती हैं। ट्रम्प और



■ व्हाइट हाउस ने फोटो-वीडियो तक जारी नहीं किया
■ बाद में दोनों के बीच करीब 1 घंटा 20 मिनट तक बैठक

शहबाज के यह 3 दिन में दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले दोनों नेताओं ने 23 सितम्बर को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के दौरान मुलाकात की थी। उस बैठक में कतर, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, यूएई और जार्डन के नेता भी शामिल थे। उस दौरान गाजा जंग रोकने पर बात हुई थी। शहबाज शरीफ की किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ओवल आफिस में पहली मुलाकात थी। पाकिस्तान के किसी पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति से 6 साल बाद मुलाकात हुई है। इससे पहले जुलाई 2019 में इमरान खान और ट्रम्प के बीच बैठक हुई थी। इससे पहले

शहबाज शरीफ ने 23 सितम्बर को न्यूयार्क में ट्रम्प से मुलाकात की थी। इस दौरान मुस्लिम देशों के कई नेता मौजूद थे। बैठक से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि व्हाइट हाउस में एक 'महान नेता' आ रहा है। ट्रम्प ने मीडिया से कहा पाकिस्तान को प्रधानमंत्री और फोल्ड मार्शल आ रहे हैं। वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और प्रधानमंत्री भी। दोनों ही (शहबाज और मुनीर) बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे।

छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोपी चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिका पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया कि उन्हें अग्रिम जमानत देना उचित नहीं होगा। चैतन्यानंद पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण के भी गंभीर आरोप लगे हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपी पिछले एक महीने से फरार है।

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकारों को 5 साल की जेल

92 लाख का जुर्माना भी लगा, 2007 में लीबियाई तानाशाह से पैसे लेने की साजिश रची थी

पेरिस। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकारों को पेरिस की एक अदालत ने गुरुवार को आपराधिक साजिश के आरोप में 5 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 1 लाख यूरो (लगभग 92 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया गया और 5 साल तक कोई सरकारी पद लेने पर रोक लगा दी गई है।

यह मामला 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत के लिए लीबिया के तत्कालीन तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की अवैध फंडिंग से जुड़ा है। हालांकि, कोर्ट ने सरकारों को भ्रष्टाचार जैसे अन्य आरोपों से



बरी कर दिया। 70 साल के सरकारों ने फ्रांस को कानून के खिलाफ बताते हुए ऊपरी कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। निकोलस सरकारों को 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। उनकी पत्नी काला ब्लूनी एक फेमस सिंगर और मॉडल हैं। निकोलस सरकारों अपनी पत्नी काला ब्लूनी के साथ सुनवाई के

■ 70 साल के सरकारों ने फ्रांस को कानून के खिलाफ बताते हुए ऊपरी कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया

लिए कोर्ट पहुंचे थे। अदालत ने फ्रांस को कानून के खिलाफ बताते हुए ऊपरी कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया है। निकोलस सरकारों को 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। उनकी पत्नी काला ब्लूनी एक फेमस सिंगर और मॉडल हैं। निकोलस सरकारों अपनी पत्नी काला ब्लूनी के साथ सुनवाई के

भारत का परमाणु क्षमता को बढ़ाने की दिशा में सराहनीय काम: विश्व परमाणु संघ

मास्को। विश्व परमाणु संघ की महानिदेशक समा बिलबाओ लियोन ने विश्व परमाणु सप्ताह समारोह में कहा है कि भारत अपने स्वदेशी कार्यक्रम के साथ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में शानदार काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों में परमाणु ऊर्जा का अच्छा विकास हुआ है। लियोन ने कहा कि भारत की क्षमता की ओर देख रही है। उल्लेखनीय है कि यह समारोह रूसी परमाणु उद्योग की 80वीं वर्षगांठ का समर्पित है। उन्होंने कहा कि कई

■ चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों में परमाणु ऊर्जा का अच्छा विकास हुआ

देश आपूर्ति श्रृंखला के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। उन्होंने 2047 तक भारत के 100 गीगावाट के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के पास करने के लिए बहुत बड़ा काम है और सभी का ध्यान इसी पर है कि इसे कैसे पूरा किया जाएगा। उन्होंने नीतिगत विकास पर कहा कि भारत को अपने परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत है।

तुर्की के जवाब में भारत ने साइप्रस का मुद्दा उठाया

कहा: यूएन के मुताबिक समाधान हो, एर्दोगन ने यूएन में कश्मीर मुद्दे का किया था जिक्र

नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में साइप्रस के विदेश मंत्री से बात की है। इस दौरान उन्होंने साइप्रस विवाद को यूएन नियमों के मुताबिक हल करने पर बात की। दरअसल तुर्की ने 1974 में साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया था, तब से वहां विवाद की स्थिति बनी हुई है।

भारत के आज के बयान से तीन दिन पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने यूएन में जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इस पर जायसवाल ने कहा कश्मीर मुद्दे पर हमारा स्टैंड 10 साल से पूरी तरह क्लियर है। जायसवाल ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने नाटो से सावधानी से बयान देने को कहा। इसके साथ यह भी कहा कि भारत अपने लोगों के लिए सस्ती बिजली



■ इस पर जायसवाल ने कहा कश्मीर मुद्दे पर हमारा स्टैंड 10 साल से पूरी तरह क्लियर है

वार मुद्दे पर राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। जायसवाल ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने नाटो से सावधानी से बयान देने को कहा। इसके साथ यह भी कहा कि भारत अपने लोगों के लिए सस्ती बिजली

और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाता रहेगा। हाल ही में मार्क स्टे ने कहा था कि अमेरिका ने जो टैरिफ भारत पर लगाए हैं, उसका असर रूस पर भी पड़ रहा है। उनके मुताबिक, टैरिफ की वजह से भारत ने रूस से उसकी यूक्रेन युद्ध रणनीति को लेकर जवाब मांगा है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं। जायसवाल ने बताया कि इस साल जनवरी से अब तक 2,417 भारतीय अमेरिका से वापस आए। ये लोग सही दस्तावेजों के बिना वहां थे। भारत चाहता है कि लोग कानूनी तरीके से विदेश जाएं। अवैध तरीके से विदेश जाने वालों को रोकने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। लोगों को जागरूक करने और झूठे नौकरी के आफर से बचने की सलाह दी गई है।

लश्कर डिप्टी चीफ बोला: हिंदुस्तान व हिंदुओं का सफाया होगा

इस्लामाबाद। लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसुरी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भारत से हिंदुओं का सफाया करने की धमकी देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वीडियो 22 अप्रैल के पहलगाम आतंक हमले से पहले का है।

कसुरी इस हमले के मास्टरमाइंड में से एक हैं। वीडियो में वह कहता है कि हमारे काफिले न रुकेंगे, न थमेंगे और तब तक चीन से नहीं बैठेंगे जब तक पूरे हिंदुस्तान पर 'ला इलाहा इलल्लाह' (अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं) के परचम लहरा नहीं देते। कसुरी आगे कहता है कि ये वक्त आने वाला है, कोई नाउम्मीदी नहीं। हम जिस मैदान में खड़े हुए हैं, अपने दुश्मन को चारो खाने चित्त किया है। ये हिंदु हमारे सामने क्या है। हिंदुस्तान का हिंदू मिट जाएगा और

■ पहलगाम हमले के पहले का वीडियो सामने आया, भारत में इस्लामी राज लाने की धमकी दी

इस्लाम का राज आने वाला है। कसुरी वीडियो में कहता है कि ये भाषण वो लश्कर के मुरीदके हेडक्वार्टर से दे रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर के इस हेडक्वार्टर पर हमला बोला था। बाद में पाकिस्तानी सेना ने झुठ दावा किया था कि यह आतंकवादी अड्डा नहीं, बल्कि एक मस्जिद है। कसुरी ने पाकिस्तान को 'अल्लाह की दी हुई पनाहगार' बताया। उसने कहा: पाकिस्तान सलामती और अमन की सरजमीं है, ये दुनियाभर के मुस्लिमों का हमदर्द और मददगार है। इसके अलावा कसुरी ने दुनिया से पाकिस्तान की कद्र करने और जुड़ने को कहा।

यौन समस्याएं

यौन समस्याओं के विशेषज्ञ

पुराने से पुराने यौन रोग के मरीज एक बार अवश्य मिलें

डा. सम्राट

नशामुक्ति, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा तम्बाकू, प्रोक्सीवॉन केसूल अपफीम, चरस, डोहे पोस्ट हंजेक्शन व अन्य नशा छुड़ाने का स्थायी ईलाज।

नावल्टी सिनेमा चौक गुजपफरनगर (यू.पी.)

M-9412211108